

दीव जिला के लिए जीआईएस आधारित मास्टर प्लान बनाने से संबंधित आयोजित की गई बैठक

दीव (दिनांक 24/07/2018) :- समाहर्ता, दीव श्री हेमंत कुमार की अध्यक्षता में आज जीआईएस आधारित दीव के लिए मास्टर प्लान बनाने से संबंधित एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में नैसैंट इंफो टेक्नोलॉजी प्रा. लि; अहमदाबाद के अधिकारी, उप समाहर्ता डॉ अपूर्व शर्मा, सीईओ श्रीमती वंदना राव तथा प्रशासन के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रारंभ में नैसैंट इंफो टेक्नोलॉजी प्रा. लि; अहमदाबाद के अधिकारी ने दीव का मौजूदा विकास संबंधी प्लान तथा जीआईएस आधारित प्लान पर चर्चा की। नैसैंट के अधिकारी ने प्रजेंटेशन के माध्यम से दीव का ग्रामीण एवं शहरी प्लान को प्रस्तुत किया। जैसा कि वर्तमान में दीव का प्लान गोवा, दमण एवं दीव टाउन एवं कंट्री प्लानिंग एक्ट 1974 एवं नियमावली, 1976 के अनुसार बना हुआ है। लेकिन जीआईएस आधारित नये मास्टर प्लान में दीव का मेट्रो सीटी की तरह विकास हो, इसके लिए सड़कों का चौड़ीकरण, मेट्रो सीटी की तरह इसका निर्माण, नालियों की उचित व्यवस्था तथा ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली की सुविधा युक्त बनाने का भी प्रस्ताव किया जायेगा। इसमें रेसिडेंट, कमर्सियल और रोड तथा ट्रैफिक जोन के हिसाब से प्लान बनाये जायेंगे। पर्यटक स्थलों को ध्यान में रखते हुए दीव का नया प्लान बनाने का प्रस्ताव किया जायेगा।

बैठक में समाहर्ता, उप समाहर्ता एवं सीईओ श्रीमती वंदना राव तथा अन्य अधिकारियों ने दीव की स्थिति और सीमित एरिया को ध्यान में रखते हुए दीव के समुचित विकास हेतु महत्वपूर्ण सुझाव रखे। ग्रीन जोन विकास, दीव में कृषि का सतत विकास और लाभकारी कैसे बनाया जाए, सामाजिक तथा आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर मास्टर प्लान बनाए जायें। दीव का एरिया कम है और यह एक पर्यटक स्थल है अतः दीव का मास्टर प्लान में इस विषय को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। नैसैंट, अहमदाबाद के अधिकारी ने इन सब मुद्दों को मास्टर प्लान में रखने का आश्वासन दिया कि बैठक में रखे गए सभी सुझावों पर जीआईएस आधारित दीव जिला के लिए मास्टर प्लान बनाने के दौरान विचार किया जायेगा।

